

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- |  |  |
|--|--|
| 1- मुख्य प्रशासक,<br>उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास<br>प्राधिकरण, देहरादून। | 2- उपाध्यक्ष,<br>विकास प्राधिकरण<br>देहरादून / हरिद्वार। |
| 3- जिलधिकारी / उपाध्यक्ष,<br>समस्त जिला विकास प्राधिकरण,<br>उत्तराखण्ड।    | 4- सचिव,<br>दूनघाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण<br>देहरादून। |
| 5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,<br>नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,<br>देहरादून। |  |

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 05 फरवरी, 2019

विषय- उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015)  
में निहित मानकों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-888/V-2013-55(आ0)/2006-टी0सी0, दिनांक 12.06.2015 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में यथा संशोधन करते हुए प्रख्यापित की गयी थी। उक्त भवन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को समय-समय पर यथा संशोधन भी किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की विषम भौगोलिक पारिस्थितियों यथा भवन हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता, भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि कम होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मानकों को यथावश्यक कम करते हुए आवासीय, चिकित्सीय, पर्यटन, व्यावसायिक आदि गतिविधियों का विस्तार किये जाने हेतु भवन उपविधि के मानकों को संलग्न परिशिष्ट-1 एवं तालिका-01, 02, 03 के अनुसार संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्तानुसार भवन उपविधि के संलग्न संशोधनों के अतिरिक्त शेष अन्य प्राविधान शासनादेश संख्या-888/V-2013-55(आ0)/2006-टी0सी0, दिनांक 12.06.2015 एवं तद्विषयक संशोधित शासनादेशों के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त संशोधित प्राविधान, संबंधित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकरण के उपरान्त ही लागू होंगे।


भवदीय,

(नितेश कुमार झा)  
सचिव

संख्या- 39 / V-2-2019-55(आ0) / 2006-टी0सी0-तददिनांक ।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 4- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / देहरादून ।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 8- सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण / मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून ।
- 9- सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
- 10- सचिव, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड ।
- 11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

  
(सुनीलश्री पांथरी )  
अपर सचिव

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान			
उपविधि / विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान	अभिव्यक्ति / टिप्पणी
1. बिन्दु संख्या 2.3 (Chapter-11) परिभाषायें (शासनादेश संख्या 2013/V. 2015-55 (आ10) / 2006-टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र हेतु यथा संशोधित परिभाषा में अतिरिक्त प्राविधान जोड़ा जाना है।	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र): राजस्व अभिलेखों के अनुसार पर्वतीय ग्राम 1. पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उल्लरकाशी, टिहरी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र 2. देहरादून जनपद की पुरानी चक्रवात तहसील व मसूरी सब डिवीजन 3. नैनीताल जनपद की नैनीताल तहसील, कोशिया कटौती तहसील तथा धारी तहसील 4. टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद चम्पावत का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा कोटद्वार नगरपालिका को छोड़कर जनपद पौड़ी (ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र को छोड़कर) का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा रामनगर नगरपालिका सीमा की उत्तरी सीमा से उत्तर की ओर रामनगर तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र	अतिरिक्त बिन्दु 2.5 (1) फुटहिल क्षेत्र: देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा पौड़ी, टिहरी तथा चम्पावत जनपदों में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य "फुटहिल" क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है।	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र) तथा Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र) के मध्य के ऐसे क्षेत्र जो अधिकांशतः पर्वतीय भू-भाग की प्रकृति लिये होते हैं किन्तु ऐसे क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवन उपविधि में मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानकों का प्रयोग किया जाता है जिससे भू-भाग की प्रकृति के विपरित अत्यवहारिक निर्माण कार्य प्रोत्साहित हो रहे हैं। अतः देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा चम्पावत जनपदों के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्र को "फुटहिल" के रूप में परिभाषित किया जाना है। "फुटहिल" क्षेत्रों का निर्धारण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा किया जाना है किन्तु बोर्ड द्वारा एक बार निर्धारण किये जाने के पश्चात्, दूसरी बार "फुटहिल" क्षेत्रों के निर्धारण/संशोधन राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् किया जायेगा। फुटहिल क्षेत्रों हेतु निम्नलिखित मानक होंगे, (1) फुटहिल क्षेत्रों में अधिकतम भवन ऊँचाई 21 मी0 अनुमत्त होगी (विद्यमान मार्ग चौड़ाई के अनुसार) (2) फुटहिल क्षेत्रों में पहुँच मार्ग की चौड़ाई, भवन उपविधि में मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित पहुँच मार्ग की चौड़ाई से 25 प्रतिशत कम होगी अर्थात् मैदानी क्षेत्रों में यदि पहुँच मार्ग की चौड़ाई 9 मी0 निर्धारित है तो वह फुटहिल क्षेत्रों में 6.75 मी0 होगी। (3) फुटहिल क्षेत्रों में भवन उपविधि के शेष प्राविधान मैदानी क्षेत्रों के समान होंगे।
बिन्दु संख्या 2.4	Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र): उपरोक्त वर्णित पर्वतीय क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य का अवशेष क्षेत्र।		

**उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान**

उपविधि / विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान	अभियुक्ति / टिप्पणी																																							
2. बिन्दु 4.1 (Chapter-IV) Site Development Parameters for Buildings/Projects other than special township का संशोधन	बिन्दु संख्या 4.1 में प्राविधानित तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भवनों/परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों में दर्शायी गयी पहुँच मार्ग की विद्यमान न्यूनतम चौड़ाई/महायोजना में निर्धारित चौड़ाई।	बिन्दु संख्या 4.1 में प्राविधानित तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भवनों/परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों में दर्शायी गयी पहुँच मार्ग की विद्यमान न्यूनतम चौड़ाई/महायोजना में निर्धारित चौड़ाई के संलग्न तालिका के अनुसार संशोधित किये जाते हैं।	संलग्न तालिका-1, तालिका-2 में अंकित मार्ग की चौड़ाई निर्धारण का प्राविधान किया जाता है।																																							
बिन्दु 4.2 का संशोधन	बिन्दु संख्या 4.2 में प्राविधानित तालिका के रूप में दर्शाये गये पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल।  पब्लिक / सेमी पब्लिक -शैक्षिक संस्थान (Educational)	बिन्दु संख्या 4.2 में तालिका के रूप में दर्शाये गये पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल के निर्धारित मानकों को संलग्न तालिका के अनुसार संशोधित किये जाते हैं।  पब्लिक / सेमी पब्लिक -शैक्षिक संस्थान (Educational)	संलग्न संलग्न तालिका-1, तालिका-2 में भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित।																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of Building</th> <th>Plain</th> <th>Hills</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nursery/Creche</td> <td>750</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Primary schools</td> <td>4000</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>Middle school</td> <td>8000</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>High school</td> <td>18000</td> <td>13500</td> </tr> <tr> <td>Integrated school (1<sup>st</sup> to 12<sup>th</sup>)</td> <td>30000</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>University</td> <td>100000</td> <td>75000</td> </tr> </tbody> </table>	Type of Building	Plain	Hills	Nursery/Creche	750	500	Primary schools	4000	3000	Middle school	8000	6000	High school	18000	13500	Integrated school (1 <sup>st</sup> to 12 <sup>th</sup> )	30000	15000	University	100000	75000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of Building</th> <th>Plain</th> <th>Hills</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nursery/Creche</td> <td>400</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Primary schools</td> <td>2000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Middle school</td> <td>4000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>High school /Intermediate</td> <td>15000</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>University</td> <td>75000</td> <td>20000</td> </tr> </tbody> </table>	Type of Building	Plain	Hills	Nursery/Creche	400	200	Primary schools	2000	1000	Middle school	4000	2000	High school /Intermediate	15000	6000	University	75000	20000	
Type of Building	Plain	Hills																																								
Nursery/Creche	750	500																																								
Primary schools	4000	3000																																								
Middle school	8000	6000																																								
High school	18000	13500																																								
Integrated school (1 <sup>st</sup> to 12 <sup>th</sup> )	30000	15000																																								
University	100000	75000																																								
Type of Building	Plain	Hills																																								
Nursery/Creche	400	200																																								
Primary schools	2000	1000																																								
Middle school	4000	2000																																								
High school /Intermediate	15000	6000																																								
University	75000	20000																																								
	पब्लिक / सेमी पब्लिक -चिकित्सा (Health):-	पब्लिक / सेमी पब्लिक -चिकित्सा (Health):-																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of Building</th> <th>Plain sqm</th> <th>Hills sqm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratory/Clinics</td> <td>500</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary</td> <td>1000</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Hospital upto 50 beds</td> <td>4000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>More than 50-200 beds</td> <td>25000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>City/zonal/regional level hospital</td> <td>40000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Type of Building	Plain sqm	Hills sqm	Laboratory/Clinics	500	250	Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	1000	750	Hospital upto 50 beds	4000	-	More than 50-200 beds	25000	-	City/zonal/regional level hospital	40000	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of Building</th> <th>Plain sqm</th> <th>Hills sqm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratory/Clinics/Diagnostic centre</td> <td>300</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary</td> <td>750</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Hospital upto 50 beds</td> <td>2000</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Hospital 51-100 beds</td> <td>5000</td> <td>4000</td> </tr> </tbody> </table>	Type of Building	Plain sqm	Hills sqm	Laboratory/Clinics/Diagnostic centre	300	150	Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	750	500	Hospital upto 50 beds	2000	1500	Hospital 51-100 beds	5000	4000							
Type of Building	Plain sqm	Hills sqm																																								
Laboratory/Clinics	500	250																																								
Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	1000	750																																								
Hospital upto 50 beds	4000	-																																								
More than 50-200 beds	25000	-																																								
City/zonal/regional level hospital	40000	-																																								
Type of Building	Plain sqm	Hills sqm																																								
Laboratory/Clinics/Diagnostic centre	300	150																																								
Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	750	500																																								
Hospital upto 50 beds	2000	1500																																								
Hospital 51-100 beds	5000	4000																																								

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान		अभियुक्ति/टिप्पणी															
उपविधि/विनियम की संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान															
1	2	3	4														
	more than 200	<table border="1"> <tr> <td>Hospital 101-200 beds</td> <td>8000</td> <td>7000</td> </tr> <tr> <td>City/zonal/regional level hospital more than 200</td> <td>10000</td> <td>9000</td> </tr> </table>	Hospital 101-200 beds	8000	7000	City/zonal/regional level hospital more than 200	10000	9000									
Hospital 101-200 beds	8000	7000															
City/zonal/regional level hospital more than 200	10000	9000															
1. बिन्दु संख्या 5.1 Height of Building (भवन की ऊँचाई) (ii) (Chapter - V) General Building Requirements का संशोधन (ii) सैदानी क्षेत्रों में।	<p>बिन्दु संख्या 4.2 में तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों/परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects)</p> <p>बिन्दु संख्या 4.2 में तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों/परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों में निम्नवत् श्रेणियों को जोड़ा जाना:</p> <p>(1) Hotels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 stars deluxe rating hotel</li> <li>• 5 stars rating hotel</li> <li>• 4 stars rating hotel</li> <li>• Other hotels</li> </ul> <p>(2) Hostel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hostel upto 50 Beds</li> <li>• Hostel upto 50-100 Beds</li> </ul>	<p>संलग्न तालिका-1, तालिका-2 के अनुसार निर्धारित।</p> <p>संलग्न तालिका-1, तालिका-2 के अनुसार निर्धारित।</p> <p>प्रत्येक स्थानीय विकास प्राधिकरण, अपने विकास क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे जिसको "High-Rise Buildings Zone" घोषित किया जा सके तथा विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात् मास्टर प्लान में ऐसे क्षेत्र को चिह्नित किया जायेगा।</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>भूखण्ड/भवन सम्मुख स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई</td> <td>के भवनों की अधिकतम ऊँचाई (मी0)</td> <td>अधिकतम तलों की संख्या</td> </tr> <tr> <td>9.0 मी0 से कम</td> <td>9.0</td> <td>भूतल व अधिकतम ऊपरी दो तल</td> </tr> <tr> <td>9.0 मी0 व अधिक तथा 12.0 मी0 से कम</td> <td>12.0</td> <td>भूतल व अधिकतम ऊपरी तीन तल</td> </tr> <tr> <td>12.0 मी0 व अधिक तथा 18.0 मी0 से कम</td> <td>24.0</td> <td>भूतल व अधिकतम ऊपरी सात तल</td> </tr> <tr> <td>18 मी0 व इससे अधिक</td> <td>30.0</td> <td>भूतल व अधिकतम ऊपरी नौ तल</td> </tr> </table> <p>पर्वतीय क्षेत्रों में भवनों की अधिकतम ऊँचाई 12.0 मीटर एवं भूतल व अधिकतम ऊपरी तीन तल।</p>	भूखण्ड/भवन सम्मुख स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	के भवनों की अधिकतम ऊँचाई (मी0)	अधिकतम तलों की संख्या	9.0 मी0 से कम	9.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी दो तल	9.0 मी0 व अधिक तथा 12.0 मी0 से कम	12.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी तीन तल	12.0 मी0 व अधिक तथा 18.0 मी0 से कम	24.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी सात तल	18 मी0 व इससे अधिक	30.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी नौ तल	<p>(1) मसूरी क्षेत्र, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, बदरीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम तथा यमनोत्री धाम के क्षेत्र को छोड़ते हुये अन्य विकास क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में भवनों के विभिन्न श्रेणियों हेतु संलग्न तालिका के अनुसार भूखण्ड/भवन के सम्मुख स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई/अधिकतम चौड़ाई व भवनों की ऊँचाई संलग्न तालिका अनुसार किया जाना प्राविधानित है।</p> <p>(2) सभी प्रकार की परियोजनाओं में जिसमें प्रस्तावित FAR 1.8 से अधिक है, में यदि ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणिकरण होता है तो प्रस्ताहान के रूप में अधिकतम 0.5 FAR देय होगा। इसके अतिरिक्त शेष प्रस्तावित FAR क्रय योग्य होगा। यद्यपि क्षतिपूर्ति FAR उक्त प्रस्तावित समस्त प्रकार से अतिरिक्त देय होगा।</p> <p>(3) सामूहिक आवास, बहुमंजिली आवास तथा मिश्रित</p>
भूखण्ड/भवन सम्मुख स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	के भवनों की अधिकतम ऊँचाई (मी0)	अधिकतम तलों की संख्या															
9.0 मी0 से कम	9.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी दो तल															
9.0 मी0 व अधिक तथा 12.0 मी0 से कम	12.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी तीन तल															
12.0 मी0 व अधिक तथा 18.0 मी0 से कम	24.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी सात तल															
18 मी0 व इससे अधिक	30.0	भूतल व अधिकतम ऊपरी नौ तल															

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान		अभियुक्ति/टिप्पणी
उपविधि/विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान	
1	2	3
2. बिन्दु 5.5 (Chapter V) Ground Coverage & FAR का संशोधन	बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक भू-उपयोगों हेतु तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु दर्शाये गये भू-आच्छादन एवं FAR के मानक। I. आवासीय II. व्यवसायिक/कार्यालय	परियोजनाओं में 12 मी0 से अधिक मार्ग चौड़ाई होने पर प्रत्येक 1 मीटर मार्ग चौड़ाई की वृद्धि पर, भवन की ऊँचाई में समानुपातिक रूप से 1.0 मीटर के वृद्धि अनुमत्य होगी, जो कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित "High-Rise Buildings Zone" हेतु निर्धारित ऊँचाई से अधिक नहीं होगी। (4) भवन की ऊँचाई 30 मी0 से अधिक होने की स्थिति में आईआईटी0 के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग एवं भूकम्प इंजीनियरिंग विभाग तथा राष्ट्रीय भूगर्भीय संस्थान से परीक्षण करा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के ध्य पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक भू-उपयोगों हेतु तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु दर्शाये गये भू-आच्छादन एवं FAR के मानकों में संलग्न तालिका अनुसार संशोधित प्राविधान।
3. बिन्दु 5.6 (Chapter V) Parking का संशोधन	बिन्दु 5.6 के उप-बिन्दु (II) -पार्किंग मानक	संलग्न तालिका-1, तालिका-2 के अनुसार आवासीय व व्यवसायिक भवनों हेतु संशोधित मानकों के अनुसार प्राविधानित।
4. प्रस्तर 5 (Chapter-V) में अतिरिक्त विनियम जोड़ा जाना है।	पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु- 6.11: स्थानीय वास्तुकला (Local Architecture) राज्य से भवन निर्माण यथा आवासीय, व्यवसायिक, पर्यटन, मनोरंजन अथवा कार्यालय निर्माण में भवनों के Facade को राज्य की स्थानीय वास्तुकला (Local Architecture) के अनुरूप किये जाने पर प्रोत्साहन के रूप में निर्माणकर्ता को अनुमत्य तलों से एक अतिरिक्त तल अनुमत्य किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था निर्मित भवनों पर भी लागू होगी, जो अपनी facade को बदलना चाहते हैं। 6.12 राज्य के समस्त सरकारी भवनों का मानचित्र संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृत कराया जायेगा। संबंधित प्राधिकरण में शासकीय विभाग के द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराने के आवेदन करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की	संलग्न तालिका-3 के अनुसार निर्धारित स्थानीय वास्तुकला के संरक्षण व विकास हेतु।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान			
उपविधि/विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में वर्तमान प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान	अभियुक्ति/टिप्पणी
1	2	3	4
7. प्रस्तर परिभाषाएं	Chapter II परिभाषायें विनियम 2.57 के पश्चात अतिरिक्त बिन्दु सम्मिलित किया जाना	<p>जारीगी। संबंधित प्राधिकरण के द्वारा यदि 15 दिन के अन्दर सरकारी भवन के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तो उसे डीन्ड स्वीकृत मान लिया जायेगा। सरकारी भवनों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड स्थानीय वास्तुकला का समावेश किया जायेगा।"</p> <p>पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु- 2.58: ऐसे सभी क्षेत्र जो कि आवास विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से निषिद्ध किये जायेंगे: उक्त क्षेत्रों के भवनों के 200 मी0 की परिधि में किसी भी प्रकार के बहुमजिली भवन जिनकी ऊँचाई 12 मी0 से अधिक हो, का निर्माण अनुमत्य न किया जाय।</p> <p>पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु- 2.59: पर्यटन गतिविधियां: होटल में FAR व्यवसायिक श्रेणी के अनुरूप होंगे तथा इसके अतिरिक्त चेन होटल (Chain Hotel) के यदि कोई डिजाइन सम्बन्धित मानक हों तो वह स्वतः ही प्रभावी होंगे।</p> <p>पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु- 2.60: High-Rise Buildings Zone स्थानीय विकास प्राधिकरण में चिन्हित ऐसे क्षेत्र जहाँ 30 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों का निर्माण किया जायेगा ताकि High-Rise Buildings को प्रोत्साहित किया जा सके।</p> <p>पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु- 2.61 पहुंच मार्ग में शिथिलता- (1) नगर के विकसित क्षेत्रों में ऐसे भूखण्ड जिनको भवन उपविधि में मैदानी क्षेत्रों हेतु प्राविधानित निर्धारित न्यूनतम मार्ग चौड़ाई के दो पृथक-पृथक मार्गों से पहुँच मिलती हो, में भूखण्ड हेतु, अधिक चौड़े मार्ग की कुल चौड़ाई तथा कम चौड़े मार्ग की आधी चौड़ाई के कुल योग के अनुसार भवन की ऊँचाई व अन्य प्राविधान भवन उपविधि के मानकों के अनुसार अनुमत्य होंगे।</p>	<p>प्रत्येक स्थानीय विकास प्राधिकरण, अपने विकास क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे जिसको "High-Rise Buildings Zone" घोषित किया जा सके तथा विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात मास्टर प्लॉन में ऐसे क्षेत्र को चिन्हित किया जायेगा।</p> <p>बिन्दु 1 हेतु उदाहरण- यदि दो पृथक-पृथक मार्ग की चौड़ाई क्रमशः 9 तथा 10 मीटर हों तो कम मार्ग की चौड़ाई का आधा व अधिक चौड़े मार्ग का योग (4.5+10) 14.5 मी0 चौड़ाई के अनुसार भवन उपविधि में 14.5 मी0 मार्ग हेतु प्राविधानित भवन की ऊँचाई अनुमत्य होगी।</p>

SR





उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान			
उपविधि/विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान	अभिव्यक्ति/टिप्पणी
1	2	3	4
		आवश्यकता नहीं होगी।	

3/2

CATEGORY	HILLS									
	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)	
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws (meter)	Amended minimum road width (meter)	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>RESIDENTIAL</b>										
Residential - Group Housing	1000	1000	7.5	6	1.4	1.4	40%	40%	12	
Affordable Housing	4000	2000	6	6	2	2	50%	50%	12	
EWS & Rehabilitation housing schemes (Flatted Unit Size-25-35 sqm)	NP***	1000	6	6	2	2	50%	50%	12	
<b>COMMERCIAL</b>										
<b>Commercial/office spaces</b>										
Single commercial unit/single commercial office (mimimum area 25 sqm)	NP	<25-100	NP	2 (Pedestrian path)	NP	1.3	NP	70%	6	
	>100-200	>100-200	4.5	4.5	1.3	1.3	70%	70%	6	
	>200 -2000	>200 -2000	6	6	1.9	1.9	50%	50%	12	
	≥2000	≥2000	7.5	7.5	1.9	1.9	50%	50%	12	
	>2500	>2500	7.5	7.5	2.1	2.1	45%	45%	Less than 15	
<b>*Mall with single screen</b>	NP	750	NP	6	NP	1.6	NP	40%	Less than 15	
Mall with multiplex	1500	1000	9	7.5	2.2	2.2	40%	40%	Less than 15	
Serviced apartments	750	500	7.5	6	1.7	1.7	60%	60%	12	
Wedding points	1000	500	7.5	6	0.8	0.8	35%	35%	6	
*Hotels	750	---	7.5	-	1.8	-	45%	-	4	
<b>**5 stars deluxe rating hotels</b>	NP	1500	NP	7.5	NP	2	NP	45%	Less than 15	
5 stars rating hotels	NP	1000	NP	6	NP	1.8	NP	45%	12	
4 stars rating hotels	NP	1000	NP	6	NP	1.8	NP	50%	12	
Other hotels	NP	400	NP	6	NP	1.8	NP	50%	9	
Motel	2500	1000	9	7.5	0.6	0.6	30%	30%	Less than 15	
Resorts	2500	2500	9	7.5	0.9	0.9	30%	30%	9	

38

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws (meter)	Amended minimum road width (meter)	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
Eco resorts	750	750	7.5	4.5	0.25	0.25	20%	30%	3
Guest house	500	250	6	4.5	1.35	1.35	45%	45%	5
Hostel ****	500	-	6	-	1.35	-	45%	-	9
* Hostel upto 50 Beds	500	500	6	6	1.35	1.35	45%	45%	9
* Hostel upto 50-100 Beds	NM	750	NP	6	NP	1.8	NP	45%	12

\* New category added

\*\* Star rating as per guidelines of Ministry of Tourism, GoI

\*\*\* No Provisions in the current Building Bylaws

\*\*\*\* Hostel and Guest Houses are in a same category in current Building Bylaws

SL

CATEGORY	Plain										
	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)		
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws	Amended minimum road width	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>RESIDENTIAL</b>											
Residential - Multiple Units	500	500	9	9	1.8	1.8	50%	50%	9		
Residential - Group Housing	2000	2000	9	9	1.8	1.8	35%	35%	12		
		2000	NP	10	NP	1.8	NP	NP	35%	16	
		2000	NP	11	NP	1.8	NP	NP	35%	20	
		2000	NP	12	NP	1.8	NP	NP	35%	24	
Affordable Housing	4000	4000	9	9	2.1	2.1	50%	50%	12		
		4000	NP	10	NP	2.1	NP	NP	50%	16	
		4000	NP	11	NP	2.1	NP	NP	50%	20	
		4000	NP	12	NP	2.1	NP	NP	50%	24	
EWS & Rehabilitation housing schemes (Flatted Unit Size- 25-35 sqm)	NP	2000	9	9	2	2	50%	50%	12		
			NP	10	NP	2	NP	NP	50%	16	
			NP	11	NP	2	NP	NP	NP	50%	20
			NP	12	NP	2	NP	NP	NP	50%	24
<b>COMMERCIAL</b>											
Commercial/office spaces Single commercial unit/single commercial office	NP	<50-100	NP	9	NP	1.5	NP	65%	6		
		>100-200	9	9	1.5	1.5	65%	65%	6		
		>200 -2000	12	12	2.0	2.0	45%	45%	9		
		≥2000	18	15	2.0	2.0	45%	45%	12		
Mall with multiplex	2500	>2500	18	18	2.2	2.2	40%	40%	16		
		1500	18	18	2.5	2.5	40%	40%	20		
Serviced apartments	1000	750	15	15	1.8	1.8	55%	55%	16		
		2000	18	18	1.0	1.0	33.3%	33.3%	9		
Wedding points	2000	1500	18	18	1.0	1.0	33.3%	33.3%	9		
*Hotels	1000	-	15	-	2.0	-	40%	-	15		

HR

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws	Amended minimum road width	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
**5 stars deluxe rating hotels	NP	2000	NP	15	NP	3.0	NP	45%	20
5 stars rating hotels	NP	1500	NP	15	NP	2.4	NP	45%	16
4 stars rating hotels	NP	1000	NP	15	NP	2.4	NP	45%	16
Other hotels	NP	650	NP	12	NP	2.0	NP	45%	12
Motel	4000	4000	18	18	0.5	0.5	25%	25%	1
Resorts	4000	4000	18	18	0.75	0.75	25%	25%	9
Eco resorts	10000	4000	18	18	0.25	0.25	20%	20%	6
Guest House	750	500	15	15	1.60	1.60	40%	40%	7
Hostel ****	750	-	15	-	1.60	-	40%	-	12
*Hostel upto 50 Beds	750	750	15	15	1.60	1.60	40%	40%	12
*Hostel upto 50-100 Beds	NP	1000	NP	15	NP	2.00	NP	40%	16

\* New category added

\*\* Star rating as per guidelines of Ministry of Tourism, GoI

\*\*\* No Provision in the current Building Bylaws

\*\*\*\* Hostel and Guest Houses are in a same category in Current Building Bylaws

588

**Equivalent Car Parking Space (ECS) (5.6)**

CATEGORY	ECS as per BBL	Amended ECS
1	2	3
<b>RESIDENTIAL</b>		
Single Residential Plot		
100-200 sqm	1 ECS	1 Parking space of 13.75 sqm
201-300 sqm	2 ECS	2 Parking space of 13.75 sqm each
	ECS /100 sqm	ECS /100 sqm
More than 300 sqm	1.00	1.00
Residential - Multiple Units	1.00	1.00
Residential - Group Housing		
50-75 sqm plinth area	1.00	1.00
75-150 sqm plinth area	1.25	1.00
150 sqm plinth area	1.50	1.25
<b>COMMERCIAL</b>		
upto 50 sqm	-	
upto 250 sqm	1.00	1.00
upto 500 sqm	1.50	1.50
upto 1500 sqm	2.50	2.00
More than 1500 sqm	2.50	2.50
Whole sale Market, Freight Market	3.50	3.00

**Mall/multiplex/mix land use/ cinema hall**

upto 1500 sqm	3.50	3.00
More than 1500 sqm	3.50	3.50
Hotels	2.50	Upto 4 star hotels and other hotels -1 ECS for 2 guest rooms, More than 4 star hotels-1 ECS for 1 guest room, In both the cases additional parking for other commercial activities such as conference/banquet /exhibition hall/food court etc. @ 2.00 ECS per 100 sqmt of built-up area
Lodging/ Tourist house/Dharmshala/Musafeer Khanna/Guest house/Resort/Stand alone private Hostel	1.50	1.00
Hostel within the Academic Institution	-	0.75
Community Hall/Conference hall	2.00	2.00
Ashram/ Cultural or Social Institution	1.50	1.50
Nursing Home/PHC/Hospital	2.00	2.00
Barat Ghar (योजना के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत अथवा प्रति 100 वर्ग मी0 अच्छादित क्षेत्र या अंश पर ECS कि आधार पर पार्किंग स्थल में से जो भी अधिक हो)	-	-

CATEGORY	ECS as per BBL	Amended ECS
1	2	3
Office/Court/Other Court	2.50	2.00
Primary/Secondary/High school/Intermediate	1.25	1.25
Colleges/technical institutes/ University	1.50	1.50
IT campus or related units	2.00	2.00
Industry ( Home/Service/Small Industry) others	0.6	0.60
Industry others	2.75	2.00
Godam, cold storage	1.00	1.00
Stadium	20 seats 1 ECS	20 seats 1 ECS
Amusement park/entertainment place/exhibition area	30 % of total proposed area	30 % of total proposed area
Other community hall	1.5	1.50

